

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश

ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर

क्रमांक.प्रशा.14/आयकर/2026-27/का.आ./ 47

दिनांक : 10-08-2026

कार्यालय आदेश

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आय, बचत एवं निवेश का सम्पूर्ण विवरण (पैन कार्ड की छयाप्रति के साथ) निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में दिनांक 31.08.2026 तक प्रशासन-14 अनुभाग में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी आय एवं बचत का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है साथ ही उनके द्वारा यह भी सूचित किया जाये कि वे आयकर की पुरानी गणना पद्धति अथवा नवीन गणना पद्धति (New Tax Regime or Old Tax Regime) के अंतर्गत आयकर का भुगतान करना चाहते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त विवरणी पर विचार नहीं किया जायेगा एवं कार्यालय के अभिलेख के अनुसार आयकर गणना कर आयकर का कटौत कर लिया जायेगा।

सचिवालय, उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-1, 2, 3, 4, 5 दौरे पर चल रहे लेखापरीक्षा दलों को अपनी आय, बचत एवं निवेश का सम्पूर्ण विवरण अनुभाग प्रशासन-14 में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने की व्यवस्था करें।

(प्राधिकार : उप महालेखाकार/प्रशासन के अनुमोदन से जारी)

MANOJ GUPTA

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
2. उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-1, 2, 3, 4, 5 एवं प्रशासन
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (मुख्यालय)/ए.एम.जी.-1, 2, 3, 4, 5
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11, 12, 13, 14, DAC, SMU, गोपनीय कक्ष, रिपोर्ट-1, रिपोर्ट-II, रिपोर्ट (PAC) & AIC, QCC, फाप, फास, विधि कक्ष, हिंदी कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, सम्पदा प्रबंधन एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग एवं कल्याण शाखा।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing & E-Cell को कार्यालयीन वेबसाइट पर

अद्यतन करने हेतु

6. सूचना पटल एवं गार्ड फाइल

MANOJ GUPTA

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-14

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I),
MADHYA PRADESH, AUDIT BHAWAN, GWALIOR**

• Details of estimated Income and Savings for the purpose of Income Tax for the financial year 2026-27 (Assessment Year 2027-28)

1.hererby opt Old Slab/New slab of income tax for the purpose of Income tax for the financial year 2026-27 (Assessment Year 2027-28)

1.	Name and Designation	
2.	Permanent Number	
3.	Section/Branch/Group where working	
4.	Permanent Account Number (PAN) (Alloted by tax authorities)"MUST"	
COMPUTATION OF TOTAL INCOME (TAXABLE INCOME) AND TAX PAYABLE THEREON		
5.	(a) Salary (Pay+DA), Tr, Allowance, Cash Award, Arrears, Reimbursement of tuition fee, OTA, Honorarium etc.	
	(b) House Rent Allowance	
	(c) Perquisites	
	(d) Profits in lieu, or in addition to Salary	
	(e) The interest earned on Provident Fund/General Provident Fund contribution above Rs 5,00,000/-in F.Y. 2026-27	
GROSS SALARY : TOTAL (5(a)+5(b)+5(c)+5(d)+5(e))		
6.	Less: Exemption of HRA U/S 10 (13A)[Rent receipt along with PAN number of land lord should be attached]	
	I HRA Received during the relevant period	
	II Rent paid during the relevant period in excess of 10 % of Salary(i.e. PAY+DA)	
	III 40% of Salary (i.e.PAY+DA)	
Least of the above three (I, II, III)		
7.	Less: Standard Deductions from Salary	50,000 (Old Regime)and 75,000 (New Regime)
8.	Less: Deductions from Salary Professional Tax U/S 16(iii)	
9.	Income from Salary [5-6-7-8]	
10.	Income from any other head of income e.g.	
	(a) Income/Loss from house property (Please furnish statement of computation of Income/Loss under this head)	
	(b) Capital Gain	
	(c) Income from other sources	
Total [10(a)+10(b)+10(c)]		
11.	Gross Total Income [Column(9)+(10)]	
12.	Less: Deductions under Chapter VIA	
	I U/S 80C	
	a GPF	
	b CGEGIS	
	c PPF	
	d LIP/LIC	
	e NSCS/PLI	
	f Subscription to National Housing Bank etc.	

		g	Repayment of HB Loan Principal	
		h	Tuition Fees	
		i	Mutual Fund	
		j	Other	
Total ((a) to (j))				
	II		U/S 80 CCC	
	III		U/S 80 CCD 1 (New Pension Scheme self contribution)	
	IV		Aggregate amount of deduction U/S 80C, 80 CCC and 80CCD1(Restricted to Rs, 1,50,000 U/S 80 CCE)	
	V		80 CCD2 (Govt. Contribution)	
			U/s 80 CCD 1B-Contribution towards National Pension Scheme(up to Rs -50,000/-)	
	VI		Mediclaime U/S 80 D (up to 25,000/-)	
	VII		Handicapped dependent U/s 80DD(up to 75,000/- /1,25,000/-)	
	VIII		Under Section 80 G	
	IX		Handicapped Employee U/S 80 U (up to Rs 75,000/1,25,000/-)	
	X		Any other Section	
13.			Aggregate amount of deduction [(IV)+(V)+(VI)+(VII)+(VIII)+(IX)+(X)]	
14.			Total Taxable income rounded off to nearest multiple of ten rupees) (11-13)	
15.			Income Tax	
16.			Education Cess 4% of Income Tax	
17.			Total Tax Payable	
18.			Relief U/S 89 (I) if any (attach details)	
19.			Net Income Tax	

Place :

Signature of Government Servant

Date :

Mobile No.

Rate of Income Tax

Non-Senior Citizen Old Regime		New Tax Regime	
Annual Income (Rs)	Tax Rates	Annual Income (Rs)	Tax Rates
Up to 2,50,000	Nil	Upto -4,00,000	NIL
2,50,001-5,00,000	5%	4,00,001-8,00,000	5%
5,00,001-10,00,000	20%	8,00,001-12,00,000	10%
More than 10,00,000	30%	12,00,001-16,00,000	15%
-		16,00,001-20,00,000	20%
-		20,00,001-24,00,000	25%
-		More than 24,00,000	30%

Note:- The new tax regime would be the default option for taxpayers. If the officials has not opted any regime, the tax would be calculated and deducted according to new tax regime.